

आई.सी.एम.आर – राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

ICMR – National Institute for Implementation Research on Non-Communicable Diseases, Jodhpur

आधिकारिक बैठक हेतु जलपान सामग्री की मांग हेतु प्रपत्र

Requisition Form for Refreshment Items for Official Meeting

मांगकर्ता का नाम Name of the indenter:

उद्देश्य / बैठक का विवरण Purpose/Meeting Description:

परियोजना का नाम / संस्थान Project name/Institute:

बजट मद Budget Head:

आवश्यकता की तिथि Requirement date: समय Time:

क्र. सं. S. No.	आवश्यक सामग्री Item Required	मात्रा Qty.	टिप्पणी Remarks
1			
2			
3			
4			
5			

मांगकर्ता के हस्ताक्षर Indenter's Signature:

नाम Name:

दिनांक Date:

सत्यापन अध्यक्ष Verified by Chairperson (GHMC):

प्रतिहस्ताक्षर Countersigned by SO/SAO/ACO:

टिप्पणी: कैंटीन ठेकेदार द्वारा संबंधित बिल के साथ यह मांग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में भुगतान नहीं किया जाएगा।

Note: Canteen contractor must submit this requisition with the respective bill. Without this, payment cannot be made.

दोपहर और रात्री भोजन Lunch & Dinner साधारण शाकाहारी भोजन Ordinary Vegetarian Food	
दाल Dal , मौसमी सूखी सब्जी Seasonal Dry Vegetable , सादा चावल Plain Rice, रोटी / पूरी Roti / Puri, एक पापड़ One Papad, अचार Pickle, दही/रायता (150 ग्राम) Curd/Raita (150 gm), सलाद (प्याज, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू-7 पीस) Salad (Onion, Cucumber, Tomato, Green Chili, Lemon-7 Pieces)	पूर्ण आहार Full Diet
साधारण मांसाहारी भोजन ORDINARY NON-VEGETARIAN FOOD	
दाल Dal , अंडा करी / चिकन / मछली Egg Curry / Chicken / Fish, सादा चावल Plain Rice, रोटी Roti, दही/रायता (150 ग्राम) Curd/Raita (150 gm), पापड़ Papad, अचार Pickle, सलाद (प्याज, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू-7 पीस) Salad (Onion, Cucumber, Tomato, Green Chili, Lemon-7 Pieces)	पूर्ण आहार Full Diet
दाल Dal , मटन Mutton, चावल Rice, रोटी Roti, दही/रायता (150 ग्राम) Curd/Raita (150 gm), पापड़ Papad, अचार Pickle, सलाद (प्याज, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू-7 पीस) Salad (Onion, Cucumber, Tomato, Green Chili, Lemon-7 Pieces)	पूर्ण आहार Full Diet
विशेष दोपहर और रात्री भोजन SPECIAL LUNCH/DINNER	
दो सब्जियाँ Two vegetables (1) , (2)..... , दाल Dal (1) , पुलाव चावल Pulao Rice, दही/रायता Curd/Raita, मिश्रित हरी सलाद Mixed green salad, भुना हुआ पापड़ Roasted Papad, अचार Pickles, रोटी / पूरी Roti / Puri, मिठाई (गुलाब जामुन / छेना मिठाई / रसमलाई (एक पीस) Sweets (Gulab Jamun / Chhena sweet / Rasmalai (one piece) या आइसक्रीम (वेनिला/स्ट्रॉबेरी/चॉकलेट) Ice Cream (vanilla/strawberry/Chocolate), फ्रूट रायता Fruit Raita, मिनरल वाटर (200 मिली) Mineral Water (200 ml)	पूर्ण आहार Full Diet

अन्य कोई विशेष अनुरोध (यदि हो) Any Other Request :

(मांगकर्ता के हस्ताक्षर Indenter's Signature)